

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2016—श्रावण 17, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्र. बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये तहसील एवं जिला स्तर की अधिसूचना क्र. 232, दिनांक 4 जून, 2016 एवं क्रमांक 287, दिनांक 13 जुलाई, 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ एवं रबी 2016 के लिये अधिसूचित फसलों के अतिरिक्त संलग्न सूची अनुसार जिला सिंगरौली तहसील स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. जिला सिंगरौली, तहसील स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली तहसीलवार फसलों की सूची

प्रकाशित अधिसूचना क्र. 232, दिनांक 4 जून 2016 एवं क्र. 287, दिनांक 13 जुलाई 2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है.

मौसम खरीफ वर्ष 2016-2017 500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की तहसीलवार सूची

जिला (1)	तहसील (2)	ज्वार (3)	कोदो-कुटकी (4)	मूंगफली (5)	तिल (6)	कपास (7)
सिंगरौली	देवसर	-	-	-	तिल	-
	चितरंगी	-	-	-	तिल	-
	सरई	-	-	-	तिल	-
	सिंगरौली	-	-	-	तिल	-
	माड़ा	-	-	-	तिल	-